



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2008 (अग्रहायण 1, 1930)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2008 (AGRAHAYANA 1, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	1397	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	1057	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	15	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	7261
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	1931	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	513
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	9673
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .....	859
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

\*अंकित प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	1397	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	1397	PART II—SECTION 3—Statutory Orders (Authoritative texts in Hindi, other than such texts, published in Section 5 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	15	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence.....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1321	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways, and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.....	7261
PART II—SECTION 4—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	513
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	9673
PART II—SECTION 3—Sub-SECTION III—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.....	859
PART II—SECTION 3—Sub-SECTION III—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2008

सं. 108-प्रेज-2008—भारत की राष्ट्रपति वर्ष 2008 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक भुंखला के पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करती है:—

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

1. श्री गणपत (मरणोपरांत), मध्य प्रदेश
2. श्री भीमराव देसरम सोनटस्के, महाराष्ट्र (मरणोपरांत)
3. मास्टर ललितशर्मा, मिज़ोरम
4. कुमारी प्रस्थरी (मरणोपरांत), मिज़ोरम
5. श्री ललितशर्मा (मरणोपरांत), मिज़ोरम
6. श्री जबर सिंह कुशवाह (मरणोपरांत), मध्य प्रदेश
7. श्री सतीश नेगलूर (मरणोपरांत), कर्नाटक
8. मास्टर अभिषेक (मरणोपरांत), हरियाणा
9. मास्टर सूरज (मरणोपरांत), हरियाणा

उत्तम जीवन रक्षा पदक

1. योबी फरज़ाना, बिहार
2. श्री निज़ार अहमद नायक, जम्मू और कश्मीर
3. मास्टर नितिन जोषी, केरल
4. मास्टर कै. बोनी सिंह, मणिपुर
5. मास्टर सुभाष मुना, उत्तर प्रदेश
6. मास्टर युष्ताथ श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़

? जीवन रक्षा पदक

1. मास्टर रायपल्लो वामसी, आन्ध्र प्रदेश
2. श्री कमल चन्द्र शील, असम
3. श्री अनिल नाथ, असम
4. श्री गोवरधन दाम, असम
5. मास्टर निहाल स्मार्कत बोरकर, गोवा
6. श्री देश पाहा, हिमाचल प्रदेश
7. श्री हरविलास, हिमाचल प्रदेश
8. श्री मोहिन्द सिंह, हिमाचल प्रदेश
9. श्री ओंकार चन्द, हिमाचल प्रदेश
10. श्री संजय राजानन शहसाने, महाराष्ट्र
11. श्री सोमसंगण्णा, मिज़ोरम
12. कुमारी एफ. लीमिंग्गलानी, मिज़ोरम
13. श्री सुधीर शंकर शर्मा, राजस्थान
14. श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, राजस्थान
15. श्री आर राधाशंकरन, तमिलनाडु
16. श्री सुनील चौहान, उत्तराखण्ड
17. श्रीमति मगना देवी रावत, उत्तराखण्ड
18. श्री दया सिंह, उड़ीसा
19. कुमारी बबिता, हरियाणा
20. मास्टर अमरजीत, हरियाणा

21. मास्टर मनस निषाद, छत्तीसगढ़
22. मास्टर विष्णु सो. एस., केरल
23. मास्टर श्रीजित, केरल
24. मास्टर सुमित टी. ए., केरल
25. मास्टर विजिन बाबू, केरल
26. मास्टर विजय सिंह, मध्य प्रदेश
27. मास्टर अभित कुमार वेङ्गा, उड़ीसा
28. कुमारी रजिषा परवीन, महाराष्ट्र
29. मास्टर जेसुफ अली, राजस्थान
30. मास्टर शशिक ठाकुर, झारखण्ड
31. मास्टर प्रदीप बी. रावत, गोवा
32. मास्टर एफ. जोरिनपुरिया, मिज़ोरम
33. मास्टर सुरेन्द्र कुमार यादव, छत्तीसगढ़
34. मास्टर सुनील कुमार पी. एन., कर्नाटक

वरुण मिश्रा

संयुक्त सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 2008

सं. पीएफजी(487):1989-प्रशा-11--कंपनी अधिनियम, 1956 के 448(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नएला के कार्यालय में वर्ष-निदेशक (नियंत्रण) श्री बी. सी. पांजा को उक्त धांप के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.09.2008 से 26.09.2008 की अवधि तक के लिए शासकीय समायक, जयपुर के रूप में प्राधिकृत करते हैं।

जे. एस. गुप्ता

अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

संकल्प

सं. ई.आर.बी.-1/2007/23/5--मो. इलियाम हुसैन, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता के अधीन यात्री सुविधा समिति पुनर्गठित करने संबंधी रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 5.2.2007, 12.2.2007 एवं 15.2.2007 के समसंख्यक संकल्पों के आगे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि निदेशक यातायात धार्मिक (सामान्य), रेलवे बोर्ड के स्थान पर निदेशक यातायात धार्मिक (सा.) II, रेलवे बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड के यातायात धार्मिक निदेशालय में यात्री सुविधा संबंधी विषय पर कार्यवाही कर रहे हैं, समिति के सचिव हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी. के. मिश्र

संयुक्त सचिव (सा.)

## PRESIDENT'S SECRETARIAL

New Delhi, the 14th November 2008

No. 108-Pres 2008—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2008 on the following persons:—

## Sarvottam Jeevan Raksha Padak

1. Shri Gajpat (Posthumous), Madhya Pradesh
2. Shri Bhanu Rao Dabirath Sontakke (Posthumous), Maharashtra
3. Master Lalbasanga Mizoram
4. Kunti Estheri (Posthumous), Mizoram
5. Shri Lalchandharwaria (Posthumous), Mizoram
6. Shri Jabar Singh Kushwah (Posthumous), Madhya Pradesh
7. Shri Satyesh Nayabur (Posthumous), Karnataka
8. Master Abhishake (Posthumous), Haryana
9. Master Suraj (Posthumous), Haryana

## Uttam Jeevan Raksha Padak

1. Bibi Uzama, Bihar
2. Shri Nisar Ahmad Naikoo, Jammu & Kashmir
3. Master Nabin Joy, Kerala
4. Master K. Boney Singh, Manipur
5. Master Subhash Kumar, Uttar Pradesh
6. Master Yuktarth Shrivastava, Chhattisgarh

## Jeevan Raksha Padak

1. Master Rupalali Yamsi, Andhra Pradesh
2. Shri Kamal Chandra Sil, Assam
3. Shri Anil Nath, Assam
4. Shri Gobar Dhan Das, Assam
5. Master Nihal Ramakant Borkar, Goa
6. Shri Dresh Pal, Himachal Pradesh
7. Shri Harbhas, Himachal Pradesh
8. Shri Mohinder Singh, Himachal Pradesh
9. Shri Onkar Chand, Himachal Pradesh
10. Shri Sanjay Gajanan Shaisane, Maharashtra
11. Shri Lawmsangzuala, Mizoram
12. Kunti E. Hmingsanghanti, Mizoram
13. Shri Sudhar Shankar Sharma, Rajasthan
14. Shri Sudharthi Shankar Sharma, Rajasthan
15. Shri R. Rudhakrishnan, Tamil Nadu
16. Shri Sanil Chaudhan, Uttarakhand
17. Shri Jagat Deva Rawat, Uttarakhand
18. Shri Dara Singh, Orissa
19. Kunti Babita, Haryana
20. Master Amerjeet, Haryana

21. Master Manas Nishad, Chhattisgarh
22. Master Vishnu C. S., Kerala
23. Master Sankuth, Kerala
24. Master Sujah T.A., Kerala
25. Master Rajin Babu, Kerala
26. Master Vijay Singh, Madhya Pradesh
27. Master Anil Kumar Beura, Orissa
28. Kunti Ranaya Parween, Maharashtra
29. Master Jeevali, Rajasthan
30. Master Shashank Thakur, Jharkhand
31. Master Praveen B. Raut, Goa
32. Master F. Zorimpuria, Mizoram
33. Master Surendra Kumar Yadav, Chhattisgarh
34. Master Sunil Kumar P.N., Karnataka

BARUN MITRA

Joint Secy.

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 22nd September 2008

No. PG(487) 1989-Adm.II—In exercise of the powers conferred by 448(1) of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Shri B. C. Meena, Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Northern Region), Ministry of Corporate Affairs, Noida as Official Liquidator, Jaipur for the period from 01.09.2008 to 26.09.2008 for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA

Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th October 2008

## RESOLUTION

No. ERB-L2007 23-5—Further to Ministry of Railways (Railway Board's) Resolutions of even number dated 05-02-2007, 12-2-2007 & 15-02-2007 reconstituting the Passenger Amenities Committee under the Chairmanship of Shri Md. Ilyas Hussain, Ex. Minister, Government of Bihar, Ministry of Railways (Railway Board) have decided that Director Traffic Commercial (G)-II, Railway Board who is dealing with the subject of passenger amenities in the Traffic Commercial Directorate of Railway Board should be the Secretary of the Committee in place of Director Traffic Commercial (G), Railway Board.

## ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. MINZ

Joint Secy. (Gaz)